



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2008/अग्राहायण 4, 1930

No. 624]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2008/AGRAHAYANA 4, 1930

यस्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 818(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 में, नियम 53 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“54. रेशम उद्योग के उत्पादों का व्यापार और वाणिज्य :
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट रेशम उद्योग के कच्चे माल और उत्पादों के संचालन पर लागू निर्बंधन रेशमकीट बीज, कोयों, जिसके अंतर्गत सीलिंग कोये भी हैं, रेशमी सूत और रेशम उद्योग के अन्य उत्पाद के भंडारण, वितरण, व्यापार और वाणिज्य पर लागू नहीं होंगे।”

[फा. सं. 25011/5/2008-रेशम]

मृपेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :- मूल नियम संख्यांक का.नि.आ. 662, तारीख 23 मार्च, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

1. सा.का.नि. 561, तारीख 17 अप्रैल, 1971
2. सा.का.नि. 1250, तारीख 7 अक्टूबर, 1972
3. सा.का.नि. 1165, तारीख 2 नवम्बर, 1974
4. सा.का.नि. 141, तारीख 9 फरवरी, 1985
5. सा.का.नि. 29, तारीख 9 जनवरी, 1993
6. का.आ. 1059, तारीख 30 मई, 1998
7. सा.का.नि. 426, तारीख 28 अक्टूबर, 2000
8. सा.का.नि. 420, तारीख 11 दिसम्बर, 2004
9. सा.का.नि. 632, (अ), तारीख 28 सितम्बर, 2007

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2008

G.S.R. 818(E).—In exercise of powers conferred by section 13 of the Central Silk Board Act, 1948 (LXI of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Silk Board Rules, 1955, namely :-

1. (1) These rules may be called the Central Silk Board (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Silk Board Rules, 1955, after rule 53, the following shall be added, namely :-

“54. Trade and Commerce in the products of Silk Industry : The restrictions on the movement of the raw materials and products

of Silk Industry, contained in any law for the time being in force, shall not apply to storing, distribution, trade and commerce of the silk-worm seed, cocoons, including reeling cocoons, silk yarn and other products of silk industry."

[F. No. 25011/S/2008-Silk]

BHUPENDRA SINGH, Jt. Secy.

Footnote:—The principal rules were published *vide number* S.R.O. 662, dated the 23rd March, 1955 and subsequently amended *vide numbers* :—

1. G.S.R. 561, dated the 17th April, 1971
2. G.S.R. 1250, dated the 7th October, 1972
3. G.S.R. 1165, dated the 2nd November, 1974
4. G.S.R. 141, dated the 9th February, 1985
5. G.S.R. 29, dated the 9th January, 1993
6. S.O. 1059, dated the 30th May, 1998
7. G.S.R. 426, dated the 28th October, 2000
8. G.S.R. 420, dated the 11th December, 2004
9. G.S.R. 632(E), dated the 28th September, 2007